

## भारत और चीन: प्रतद्विंद्वति से तालमेल तक

यह एडिटरियल 19/01/2025 को हट्टिस्तान टाइम्स में प्रकाशति "The balancing China question before India" पर आधारति है। इस लेख में अकतूबर 2024 के दौरान भारत-चीन डसिइंगेजमेंट (सैन्य वापसी) समझौते को सामने लाया गया है तथा इसे चीन के बढ़ते प्रभाव और कषेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं के कारण चल रही चुनौतियों के बीच एक अस्थायी वरिाम के रूप में उजागर कथिा गया है। भारत को चीन का प्रतिकार करने और अपनी कषेत्रीय भूमिका की रक्षा करने के लथि घरेलू सुधारों, वैश्वकि भागीदारी और आपूर्ति शृंखला वविधीकरण पर ध्यान देना चाहथि।

### प्रलिमिस के लथि:

भारत-चीन, एशयाई अवसंरचना नविश बैंक, न्यु डेवलपमेंट बैंक, अकष्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, BASIC समूह (बराज़ील, दकषणि अफ्रीका, भारत, चीन), एक्टवि फारमास्युटकिल इंग्रीडिएंट, कृत्रमि बुद्धमित्ता, चीन का तथियांगोंग अंतरकिष स्टेशन, भारतीय अंतरकिष स्टेशन, वाइबरेंट वलिज कार्यक्रम, बेलट एंड रोड इनशिफिटवि, सेमीकंडक्टर के लथि PLI योजना, मालाबार अभ्यास, दकषणि चीन सागर

### मेन्स के लथि:

भारत और चीन के बीच तालमेल के प्रमुख कषेत्र, भारत और चीन के बीच संघर्ष के प्रमुख कषेत्र।

अकतूबर 2024 में भारत-चीन के बीच होने वाले डसिइंगेजमेंट (सैन्य वापसी) समझौते ने अस्थायी राहत प्रदान तो कथिा है, लेकनि यह उनके संबंधों के गंभीर मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं है। चीन का बढ़ता प्रभाव और कषेत्रीय महत्त्वाकांक्षाएँ भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती देती रही हैं। इस मोड़ पर, भारत को यह तय करना होगा कि आंतरकि सुधारों और वैश्वकि भागीदारी के माध्यम से चीन का प्रतिकार करना है या अपनी कषेत्रीय भूमिका को कम करने का जोखमि उठाना है। आगे की राह चीन के साथ सावधानीपूर्वक जुड़ाव की मांग करता है, जसिमें अनावश्यक संघर्ष से बचना आवश्यक है। इसके अतरकि, भारत को चीन पर नरिभरता कम करने और अपने आर्थकि समुत्थानशीलन को सुदृढ़ करने के लथि अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में वविधिता लानी चाहथि।

## भारत और चीन के बीच तालमेल के प्रमुख कषेत्र कौन-से हैं?

- **व्यापार और आर्थकि संबंध:** भारत और चीन महत्त्वपूर्ण व्यापारकि साझेदार बन गए हैं, तथा आपसी आर्थकि हति द्वपिकषीय व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - मशीनरी, इलेक्ट्रॉनकिस और रसायनों के लथि चीनी आयात पर भारत की नरिभरता, भारतीय कच्चे माल एवं सॉफ्टवेयर सेवाओं के लथि चीन के आयात की पूरक है।
  - वतित वर्ष 2024 में द्वपिकषीय व्यापार 118.40 बलियिन अमेरकि डॉलर रहा, जसिमें भारत ने 16.65 बलियिन अमेरकि डॉलर मूल्य का माल नरियात कथिा और 101.74 बलियिन अमेरकि डॉलर मूल्य के माल का आयात कथिा।
- **अवसंरचना वतितपोषण और कनेक्टविटी:** दोनों देश अवसंरचना परथिोजनाओं के वतितपोषण के लथि एशयाई अवसंरचना नविश बैंक (AIIB) और न्यु डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसे बहुपकषीय मंचों पर सहयोग करते हैं।
  - ये मंच कषेत्रीय बुनथिादी अवसंरचना और कनेक्टविटी में सुधार के साझा लक्ष्य के अनुरूप हैं, जो एशया में आर्थकि वकिास के लथि महत्त्वपूर्ण हैं।
  - जुलाई 2024 में चीन कलकत्ता सेवा (CCS) के उदघाटन जैसे हालथिा वकिास का उददेश्य व्यापार संपर्क में सुधार करना और पारगमन समय को कम करना है।
- **जलवायु परविरतन और नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत और चीन दोनों ने जलवायु परविरतन से नपिटने और सतत् वकिास लक्ष्य प्राप्त करने के लथि वैश्वकि प्रयासों के प्रता प्रतबिद्धता जताई है।
  - बड़ी वकिासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, ये पेरसि समझौते जैसे कार्यद्वै के तहत अकष्य ऊर्जा संवर्द्धन, कार्बन न्यूट्रलटी और कलाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दों पर एकजुट होते हैं।
  - चीन सौर ऊर्जा के शीर्ष उत्पादक के रूप में वशि्व में अग्रणी है, जो वर्ष 2022 में 105 गीगावाट से अधिक फोटोवोल्टकि (PV) कषमता स्थापति करेगा, जबकि भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा कषमता को तीव्रता से 203.18 गीगावाट (वर्ष 2024 तक) तक बढ़ाया है, तथा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है।
  - दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा परविरतन के लथि वतित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग करने के लथि BASIC समूह (बराज़ील, दकषणि

[अफ्रीका, भारत, चीन](#)) जैसे मंचों पर काम किया है।

- **स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल सहयोग:** कोविड-19 विश्वमारी ने भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग और चीन की कच्चे माल की आपूर्ति शृंखला के बीच सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया है।
  - दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चिती करने के लिये [एकट्वि फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट \(API\)](#) और टीकों की आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिये काम कर रहे हैं।
    - चीन भारतीय दवा कंपनियों की **70% आवश्यक API की आपूर्ति** करता है।
  - 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' अर्थात् विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की भूमिका, विशेष रूप से विकासशील देशों में वैक्सीन वितरण जैसी संयुक्त पहल के दौरान, चीन की उत्पादन क्षमताओं की पूरक है।
- **पर्यटन और लोगों के बीच समन्वय:** पर्यटन और सांस्कृतिक समन्वय में तीव्रता आई है, जिससे आपसी समझ बढ़ी है।
  - **साझी बौद्ध वरिसत और शैक्षिक सहयोग में रुचि** ने लोगों के बीच संबंधों को मजबूत किया है।
  - दिसंबर 2024 में, **भारत और चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा को प्रारंभ करने**, सीमा पार नदी सहयोग और **नाथुला सीमा व्यापार** सहित 'छह आम सहमति (Six Consensus)' पर सहमत हुए।
- **वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग:** दोनों देशों को **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**, अंतरिक्ष अनुसंधान और **5G दूरसंचार** सहित प्रौद्योगिकी में सहयोग की आवश्यकता है।
  - यद्यपि प्रतिस्पर्धा जारी है, **BRICS वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) फ्रेमवर्क** जैसे मंच संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के अवसर प्रदान करते हैं।
  - **चीन AI और 5G** में वैश्विक अग्रणी है, जबकि भारत ने IT सेवाओं में मजबूत क्षमताओं का निर्माण किया है, जिसका प्रमाण यह है कि **पछिले 5 वर्षों में सेवा व्यापार अधिशेष 13.91% की CAGR से बढ़ा है।**
- **क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोध:** दोनों राष्ट्र आर्थिक वृद्धि और विकास सुनिश्चिती करने के लिये क्षेत्रीय स्थिरता का लक्ष्य रखते हैं।
  - वे भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद **आतंकवाद-रोधी प्रयासों** और **म्यांमार एवं अफगानिस्तान** जैसे पड़ोसी देशों में सीमावर्ती उग्रवाद के समाधान पर एकजुट होते हैं।
  - SCO सदस्य के रूप में, भारत और चीन ने **SCO शांति मिशन अभ्यास** जैसे संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यासों में भाग लिया है।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी साझाकरण:** भारत और चीन के लिये शांतिपूर्ण उद्देश्यों, जैसे: **मौसम निगरानी, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान** के लिये अंतरिक्ष अन्वेषण में अपार संभावनाएँ हैं।
  - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और संसाधन प्रबंधन के लिये क्षेत्रीय क्षमता को प्रबल कर सकता है।
  - **चीन का तयिगोंग अंतरिक्ष स्टेशन** और भारत का वर्ष 2035 तक '**भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन**' निर्माण का लक्ष्य, अंतरिक्ष अन्वेषण में उनकी उन्नत क्षमताओं को उजागर करता है।

## भारत और चीन के बीच संघर्ष के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **सीमा विवाद और सैन्य गतिरोध:** **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** पर अनसुलझे सीमा मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों में सबसे विवादास्पद मुद्दे रहे हैं।
  - समय-समय पर होते रहे **सैन्य गतिरोधों**, जैसे कि **गलवान घाटी संघर्ष (जून 2020)** ने दोनों देशों के बीच **तनाव को बढ़ा दिया** है और **विश्वास को कम किया** है।
  - कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद, दोनों देश **पूर्वी लद्दाख और अन्य विवादित क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी को लेकर गतिरोध** में उलझे हुए हैं।
- **व्यापार असंतुलन और आर्थिक चिंताएँ:** बढ़ता व्यापार असंतुलन संघर्ष का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, भारत चीनी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जबकि उसके सामानों के लिये बाज़ार में अभिगम सीमित है।
  - भारत की चिंताओं में **कम लागत वाले चीनी उत्पादों की डंपिंग** और **चीनी मशीनरी पर निर्भरता** शामिल है, जिससे **घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ रहा है।
  - वित्त वर्ष 2024 में, चीन के साथ **भारत का व्यापार घाटा 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया**, जिसमें **आयात 101.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात केवल 16.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था।
  - भारत द्वारा वर्ष 2020 के बाद **चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने से**, विशेष रूप से दूरसंचार और फनिटेक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, **आर्थिक तनाव बढ़ गया है।**
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना का विकास:** वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर **चीन का आक्रामक बुनियादी अवसंरचना विकास** जैसे: सड़कें, गाँवों और हवाई पट्टियों का निर्माण, **भारत के लिये चिंता का विषय** रहा है।
  - इन परियोजनाओं का उद्देश्य चीन की सैन्य रसद को बढ़ाना है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक संतुलन में बदलाव आएगा।
  - चीन पछिले पाँच वर्षों से तबिबत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत की सीमा पर **600 से अधिक शियाओकांग सीमा गाँव (समृद्ध गाँवों)** का निर्माण कर रहा है, जबकि भारत इसका मुकाबला करने के लिये अपने **वाइबरेंट वलिज कार्यक्रम** को आगे बढ़ा रहा है।
- **पाकिस्तान के प्रति चीन का समर्थन:** कश्मीर जैसे विवादास्पद मुद्दों पर समर्थन सहित पाकिस्तान के साथ चीन की घनिष्ठ साझेदारी ने **भारत-चीन संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है।**
  - **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)** के तहत बीजिंग का निवेश **पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर (PoK)** से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है।
  - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में चीन ने **मसूद अज़हर** जैसे पाकिस्तान स्थिति आतंकवादियों को वर्ष 2019 तक वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया।
- **भारत की वैश्विक आकांक्षाओं का विरोध:** चीन ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** में स्थायी सीट और **परमाणु आपूर्तिकरतता समूह (NSG)** में सदस्यता के लिये भारत के प्रयास का लगातार विरोध किया है।

- बीजिंग प्रक्रियागत और अप्रसार संबंधी चर्चाओं का हवाला देता है, जिससे भारत की अपनी स्थिति के अनुरूप वैश्विक मान्यता प्राप्त करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- अमेरिका जैसे देशों के समर्थन के बावजूद, चीन के कारण भारत की **NSG सदस्यता का प्रयास वर्ष 2016 से अवरुद्ध** है।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** को भारत द्वारा अस्वीकार करने का कारण **CPEC पर उसकी संप्रभुता संबंधी चर्चाएँ** तथा इस पहल की **ऋण-जाल कूटनीतिके बारे में आशंकाएँ** हैं।
  - दक्षिण एशिया में BRI के वसितार को चीन द्वारा भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र पर अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है।
  - श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह सौदा, जो **99 वर्षों के लिये चीन को पट्टे पर दिया गया** है, हिंद महासागर में चीन की रणनीतिक उपस्थिति पर भारत की चर्चाओं का उदाहरण है।



- **सीमा पार की नदियों पर जल विवाद:** चीन द्वारा बाँधों के निर्माण और **बरहमपुत्र (यारलुंग त्सांगपो)** जैसी नदियों की दशा मोड़ने से भारत में जल प्रवाह तथा पारस्थितिकी पर संभावित प्रभावों को लेकर चर्चाएँ बढ़ गई हैं।
  - ऊपरी तटवर्ती राज्य होने के नाते, **चीन की गतिविधियाँ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करती हैं**, जिससे जल सुरक्षा को लेकर तनाव उत्पन्न होता है।
  - चीन ने वर्ष 2015 में बरहमपुत्र पर **ज़ांगमु बाँध का निर्माण कार्य आरंभ** कर दिया था तथा उसी नदी के नचिले हिस्से में **एक बड़े बाँध के निर्माण की योजना की घोषणा** की थी।
  - चीन पर बहुत ही अहम अवधि के दौरान जल-वर्जित संबंधी आँकड़े छपाये रखने का आरोप लगाया गया है, जैसा **कक्षिसम में वर्ष 2017 की बाढ़ के दौरान** देखा गया था।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** भारत और चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्यीकरण का विरोध करता है तथा **बीजिंग क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया)** में भारत की भागीदारी को एक **रोकथाम रणनीतिके** हिस्से के रूप में देखता है।
  - भारत क्वाड साझेदारों के साथ **मालाबार अभ्यास** कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों का मुकाबला करना है।
  - चीन द्वारा अपनी नाइन-डैश लाइन के माध्यम से **दक्षिण चीन सागर के 80% से अधिक हिस्से पर किये गए दावे को परमानेंट कोर्ट ऑफ आरबिट्रेशन (वर्ष 2016) द्वारा अवैध घोषित** किया जा चुका है, जिसका भारत द्वारा भी समर्थन किया गया है।
- **साइबर सुरक्षा खतरे और डिजिटल निर्भरता:** भारत ने महत्वपूर्ण **बुनियादी अवसंरचना पर चीनी साइबर हमलों और चीनी प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता पर चर्चा** जताई है।
  - चीनी ऐप्स और नविशों पर भारत के प्रतिबंध दूरसंचार और फनिटेक जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा कमजोरियों के संदर्भ में उसकी आशंका को दर्शाते हैं।
  - वर्ष 2020 में, भारत ने गलवान संघर्ष के बाद सुरक्षा चर्चाओं का हवाला देते हुए **TikTok और WeChat सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध** लगा दिया था।
  - वर्ष 2022 में, हैकगि समूह **TAG-38 ने शैडोपैड मैलवेयर का इस्तेमाल किया**, जो पहले चीन की पीपुल्स लबरेशन आरमी (PLA) और राज्य सुरक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक टूल था, जिसने चीनी राज्य समर्थित साइबर गतिविधियों के साथ इसके संभावित संबंधों को उजागर किया।



## आत्मनिर्भरता और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण को सुदृढ़ करते हुए भारत-चीन संबंधों को किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है?

- वनिर्माण को मज़बूत करना, क्रमिक वियोजन:** भारत गैर-प्रतस्थापनीय आयातों के लिये चुनवि व्यापार संबंधों को बनाए रखते हुए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है।
  - उदाहरण के लिये, [सेमीकंडक्टर के लिये PLI योजना](#) माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रही है, जबकि भारत घरेलू क्षमता बढ़ने तक चीन से उन्नत सलिकॉन वेफर्स का आयात जारी रख रहा है।
  - इसी प्रकार, टैरफि वृद्धि और स्थानीय वनिर्माण से समर्थति भारत के खलौना उद्योग ने चीन से आयात कम कर दिया।
- हरति ऊर्जा में सहयोग, विविधि साझेदार:** भारत साझा चतिओं को दूर करने के लिये [BRICS जैसे बहुपक्षीय जलवायु मंचों](#) पर चीन के साथ जुड़ सकता है, जबकि विविधि देशों से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है।
  - भारत ने [इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स](#) के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट में जर्मनी के साथ साझेदारी की, जबकि जापान के साथ सौर बैटरी प्रौद्योगिकी अंतरण पर भी वार्ता की।
  - इस बीच, भारत घरेलू नवीकरणीय उद्योगों में क्षमता निर्माण के लिये पवन टर्बाइनों में चीन की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है।
- गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम:** महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिये स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रति करते हुए EV वनिर्माण जैसे गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी फर्मों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, चीन की इलेक्ट्रिक वाहन प्रमुख कंपनी [BYD द्वारा भारत में वनिर्माण](#) (जैसे ही 'सभी कारक' इसके लिये 'स्वीकृति' प्रदान करेंगे, क्योंकि योजना का नरितर मूल्यांकन किया जा रहा है) कार्य शुरू किया जाएगा।
- रणनीतिक वार्ता के साथ सीमा विकास:** भारत कूटनीतिक संपर्क जारी रखते हुए चीन की आक्रामक उपस्थिति का मुकाबला करने के लिये सीमा पर बुनयिदी अवसंरचना का विकास कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत के [BRO \(सीमा सड़क संगठन\)](#) ने लद्दाख तक अभगिम में सुधार के लिये [अटल सुरंग](#) का निर्माण पूरा किया, जबकि दिसंबर 2024 में भारत और चीन के विशेष प्रतनिधियों की 23वीं बैठक के माध्यम से राजनयिक प्रयासों से कुछ क्षेत्रों में तनाव कम हुआ।
- बहुपक्षीय सहयोग, द्विपक्षीय सावधानी:** भारत साझा विकास लक्ष्यों के लिये [AIIIB](#) और [SCO](#) जैसे मंचों का लाभ उठा सकता है, जबकि क्वाड जैसे साझेदारी के माध्यम से चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, [SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी कार्यवाह में भारत की सक्रिय भागीदारी](#) आतंकवाद-रोधी सहयोग सुनिश्चति करती है, जबकि इसके साथ ही वह [सेमीकंडक्टर और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति में विविधता लाने के लिये क्वाड की सपलाई चैन रेजीलरेंस इनीशिएटिवि \(SCRI\)](#) का उपयोग करता है।
- प्रौद्योगिकी सहयोग, स्वदेशी नवाचार:** भारत कृषि के लिये [AI](#) जैसे कम संवेदनशील क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग कर सकता है, जबकि

महत्त्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

उदाहरण के लिये, भारत, परशुद्ध कृषि (AI) में चीन की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है, जबकि भारतनेट और चंद्रयान मशिन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 5G और उपग्रह तकनीक में घरेलू पर्याप्तों को आगे बढ़ा सकता है।

- व्यापार में विविधता लाना, कूटनीतिक भागीदारी: भारत, चीन के साथ आर्थिक भागीदारी बनाए रखते हुए, ASEAN, दक्षिण कोरिया और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार साझेदारी को प्रबल करके चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत की एकट ईसट पॉलिसी ने वयितनाम के साथ विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों के क्षेत्र में मज़बूत व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया, जिससे चीनी आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम हुई।
- समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहभागिता: भारत क्वाड नौसैनिक अभ्यास के माध्यम से नौसैनिक गठबंधनों को मज़बूत कर सकता है, साथ ही हिंद महासागर में तनाव को रोकने के लिये चीन के साथ कूटनीतिक रूप से वार्ता कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत ने अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास-2023 आयोजित किया।
  - हालाँकि, भारत की सागरमाला परियोजना हंबनटोटा जैसे समुद्र में चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिये रणनीतिक भारतीय बंदरगाहों के विकास को सुनिश्चित करती है।
- दक्षिण एशिया और अफ्रीका में क्षेत्रीय वनिरिमाण केंद्र: भारत, चीन के आपूर्ति शृंखला प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिये बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीकी देशों जैसे पड़ोसी देशों में क्षेत्रीय वनिरिमाण केंद्र विकसित करने में रणनीतिक रूप से निवेश कर सकता है।
  - औद्योगिक पार्कों का निर्माण करके तथा भारतीय कंपनियों को इन क्षेत्रों में परिचालन विस्तार के लिये प्रोत्साहित करके भारत वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाएँ स्थापित सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत वस्त्र निर्माण के लिये इथियोपिया के साथ साझेदारी कर सकता है, जिससे निर्भरता में विविधता आएगी और भू-राजनीतिक सद्भावना उत्पन्न होगी।
- सामरिक क्षेत्रों में दोहरे उपयोग वाली अवसंरचना: भारत पूर्वोत्तर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक तथा सैन्य दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अवसंरचना विकसित कर सकता है, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता के प्रबंधन के लिये चीन के साथ कूटनीतिक चर्चा भी जारी रख सकता है।
  - उदाहरण के लिये, पोर्ट ब्लेयर की रसद क्षमता का विस्तार, संघर्ष को बढ़ाए बना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।
  - इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति शृंखला संपर्क सुनिश्चित होगा और साथ ही चीन की स्ट्रैटिज ऑफ पर्ल्स रणनीतिक मुकाबला भी होगा।
- रणनीतिक भण्डारण और भंडार: भारत चीन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण होने वाले अल्पकालिक व्यवधानों से बचने के लिये दूरलभ मृदा तत्त्वों, API और अर्द्धचालक जैसे महत्त्वपूर्ण आयातों के रणनीतिक भंडार बना सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत लथियम के लिये ऑस्ट्रेलिया और चिली के साथ साझेदारी स्थापित कर सकता है, तथा इलेक्ट्रिक वाहन वनिरिमाण जैसे उद्योगों को समर्थन देने के लिये भंडार का निर्माण कर सकता है।
  - इससे आपूर्ति शृंखला की समुत्थानशक्ति सुनिश्चित होती है तथा भू-राजनीतिक तनाव के दौरान संतुलन से प्रेरित निर्भरता कम होती है।
- वस्त्र और हस्तशिल्प में भारत की पारंपरिक शक्तियों को पुनर्जीवित करना: वस्त्र और खलौने जैसे क्षेत्रों में सस्ते चीनी आयात का मुकाबला करने के लिये, भारत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग के साथ एकीकृत करके पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, 'एक ज़िला, एक उत्पाद (ODOP)' जैसी योजनाओं के तहत उत्पादों का निर्यात करते हुए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी करके पोशमपल्ली सलिक, बनारसी साड़ियों और भारतीय काष्ठ खलौनों की पहुँच वैश्विक स्तर पर बढ़ाई जा सकती है।
  - इससे निम्न-तकनीकी क्षेत्रों में चीनी आयात पर निर्भरता कम होगी, तथा भारत के MSME इको-सिस्टम तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

## नषिकर्ष:

भारत और चीन के बीच संबंधों में तालमेल और संघर्ष दोनों हैं, जिसके लिये सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यद्यपि व्यापार, जलवायु कार्रवाई और बहुपक्षीय सहयोग जैसे क्षेत्र अवसर प्रदान करते हैं, फिर भी सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। भारत को आत्मनिर्भरता और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक सावधानी के साथ जुड़ाव को संतुलित करना चाहिये। गठबंधनों को सुदृढ़ करना, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना और आर्थिक समुत्थानशक्ति को बढ़ावा देना आवश्यक है। एक व्यावहारिक और बहुआयामी रणनीति अपनाकर, भारत क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए अपने हितों की रक्षा कर सकता है।

?????? ???? ????:

प्रश्न. वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का उदय चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया से आयाम ले रहा है। इसके आलोक में, चीन के भू-राजनीतिक और आर्थिक विस्तार को संतुलित करने के लिये भारत की रणनीतियों का परीक्षण कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न 1. कभी-कभी समाचारों में आने वाला 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative)' किसके मामलों के संदर्भ में आता है? (2016)

- (a) अफ्रीकी संघ
- (b) ब्राज़ील
- (c) यूरोपीय संघ
- (d) चीन

उत्तर: (d)

?????

प्रश्न 2. चीन-पाकस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल 'एक पट्टी एक सड़क' पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। CPEC का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिये और भारत द्वारा उससे कनारा करने के कारण गनाइये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-and-china-rivalry-to-resilience>

